

**HFCL Limited**

8, Commercial Complex, Masjid Moth, Greater Kailash - II,
New Delhi - 110048, India

Tel : (+91 11) 3520 9400, 3520 9500 Fax : (+91 11) 3520 9525

Web : www.hfcl.com

Email : secretarial@hfcl.com

HFCL/SEC/25-26

July 26, 2025

BSE Ltd. 1 st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai – 400001 corp.relations@bseindia.com Security Code No.: 500183	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5 th Floor, C – 1, Block G Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051 cmlist@nse.co.in Security Code No.: HFCL
--	--

RE: Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”).

Subject: Publication of Un-audited Financial Results for the 1st Quarter ended June 30, 2025, of the Financial Year 2025-26, in Newspapers.

Dear Sir(s)/ Madam,

This is further to our earlier announcement dated July 25, 2025.

We hereby submit copies of the newspaper publications of the **Un-audited Financial Results** of the Company for the **1st quarter ended June 30, 2025, for the Financial Year 2025-26**, on both Standalone and Consolidated basis, as published on **July 26, 2025**, in the following newspapers, in compliance with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Financial Express (All Editions) | – English (copies for Delhi & Chandigarh Publications are attached) |
| 2. Divya Himachal (Shimla) | – Hindi (copy attached) |
| 3. Jansatta (Chandigarh) | – Hindi (copy attached) |

It may be noted that the aforesaid **Un-audited Financial Results**, had been considered and approved by the Board of Directors of the Company, at its meeting held on July 25, 2025 and were submitted to the Stock Exchanges (NSE & BSE) on the same day.

You are requested to take the above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For HFCL Limited

(Manoj Baid)
President & Company Secretary

Encl.: As above

Petronet LNG net profit slips 25% to ₹824 cr in June quarter

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, July 25

PETRONET LNG ON Friday reported a decline of 25% in its consolidated net profit for the first quarter of FY26 at ₹824.44 crore compared with ₹1,100.76 crore in the year-ago period. On a sequential basis, the company's net profit declined by 23% from ₹1,067.58 crore in Q4FY25.

The company's revenue from operations fell by 11% in Q1FY26 to ₹11,879.86 crore, against ₹13,415.13 crore in Q1FY25. Total income on a consolidated basis stood at ₹12,096.46 crore, down 11% from ₹13,592.84 crore in Q1FY25. The company's board has given an in-principle approval for additional investment for setting up a 5 metric million tonne per annum land-based LNG terminal at Gopalpur, where it earlier approved a 4 MMTPA floating storage and regasification unit-based LNG terminal.

The incremental project cost is ₹4,048.80 crore (including taxes and duties) and the overall approved value of the project is ₹6,354.80 crore, the company said in an exchange filing.

The project is the company's first greenfield liquefied natural gas (LNG) terminal on the east coast of India at Gopalpur, Odisha.

The company expects the proposed capacity to be added in approximately three years and will finance the project through a mix of debt and equity, it said.

Petronet LNG is the country's largest LNG importer. It was formed as a joint venture company by the Government of India to import LNG and set up LNG terminals, promoted by other public oil and natural gas companies — BPCL, GAIL, IOCL, and ONGC.

Apart from the new greenfield project, the existing regasification capacity of the company includes 17.5 MMTPA at the Dahej terminal currently expanding to 22.5 MMTPA and the Kochi terminal having a capacity of 5 MMTPA. Petronet LNG accounts for around 34% of gas supplies in the country and handles around 74% of LNG imports into India.

Nayara CEO quits post EU sanctions

RUSSIA-BACKED REFINER NAYARA Energy has named a new chief executive after its previous CEO resigned following European Union sanctions that targeted the company, four sources with knowledge of the matter said on Friday.

The reshuffle at the top is the latest disruption for the

company since the EU announced a new round of sanctions last Friday directed at Russia over its war in Ukraine. Mumbai-based Nayara has appointed company veteran Sergey Denisov as chief executive to replace Alessandro des Dorides, the sources said. Denisov's

appointment was decided at a board meeting on Wednesday, they said. Nayara Energy did not immediately respond to a request for comment. Des Dorides, who joined Nayara Energy in April 2024, for a three-year term, did not immediately respond to a message sent on LinkedIn. —REUTERS

CKA Birla Group



Orient Electric Limited

Registered Office: Unit VIII, Plot No. 7, Bhojnagar, Bhubaneswar-751012, Odisha
Tel: 0674-2395930, Email: investor@orientelectric.com Website: www.orientelectric.com, CIN: L31100OR2016PLC025892

Extract of Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025

S.No.	Particulars	(INR in crores)		
		Quarter ended		year ended
		Jun-30-2025	Jun-30-2024	Mar-31-2025
		Un-Audited		
1.	Total Revenue	769.08	754.86	3,093.68
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	23.66	19.26	112.25
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	23.66	19.26	112.25
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	17.52	14.34	83.21
5.	Total Comprehensive Income for the period	17.56	14.42	83.77
6.	Equity Share Capital	21.34	21.34	21.34
7.	Other Equity	-	-	672.96
8.	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)			
	Basic:	0.82	0.67	3.9
	Diluted:	0.82	0.67	3.9

Note

- The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on July 25, 2025.
- The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website (www.orientelectric.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



Place: New Delhi
Dated: July 25, 2025

For Orient Electric Limited
Sd/-
Ravindra Singh Negi
Managing Director & CEO



ADVERTORIAL

KARGIL

VIJAY DIWAS

An initiative by RED

Read. Engage. Deliver.

INDIA and Pakistan have had a tumultuous relationship since the Partition of India in 1947, marked by several wars and ongoing disputes, particularly over the Kashmir region. Tensions have fluctuated, with periods of attempted diplomacy often interrupted by conflict. One of the most significant wars between India and Pakistan was the Kargil War. Waged in the summer of 1999 and ending with a decisive victory for India, the Kargil War witnessed intense fighting in the Kargil district of India's Jammu and Kashmir at a time when both India and Pakistan were armed with nuclear weapons.

Commemorating India's victory in the historic Kargil War, Kargil Vijay Diwas is observed in India every year on July 26 to honour the Indian soldiers who fought in

Operation Vijay was launched to evict the intruders from their entrenched positions. It was not merely a display of military might but also a testament to the strategic planning, coordination and sheer determination of the Indian military.



the war. The annual observance stands as a poignant reminder of the valour, unswerving commitment to service and supreme sacrifice of the Indian armed forces during the Kargil War.

The conflict, which erupted in May of 1999 and lasted until July, was a critical moment in India's military history, marking a significant victory against the infiltrating Pakistani troops, which had surreptitiously occupied strategic heights in the Kargil sector of Jammu and Kashmir. The genesis of the conflict lay in the harsh terrains of the Himalayas, where the Line of Control (LoC) separates India and Pakistan. In early May 1999, Pakistani soldiers and militants were discovered to have occupied key positions on the Indian side of the LoC, taking advantage of the region's sparse population and extreme weather conditions, posing a direct threat to

regional and national security and integrity.

The Indian military's response was swift and resolute. Operation Vijay was launched to evict the intruders from their entrenched positions. The operation was not merely a display of military might but also a testament to the strategic planning, coordination and sheer determination of the Indian military. Indian soldiers faced daunting challenges — from steep,

rocky terrains and freezing temperatures to the constant threat of enemy fire from well-fortified positions. Despite these hurdles, the Indian forces pressed on with unwavering courage, committed to their duty to maintain national safety and integrity — inspiring generations with their indomitable spirit. Their sacrifices were pivotal in turning the tide of the battle in India's favour after intense combat operations spanning over two months and en-

tailoring the mobilisation of 200,000 Indian troops. The victory not only restored India's territorial integrity but also made India's military prowess evident to the world.

Celebrating India's hard-fought victory while paying homage to the martyrs who laid down their lives in the line of duty, Kargil Vijay Diwas is more than a day of remembrance of the war's official end on 26 July 1999. It is a celebration of the

spirit of patriotism and nationalism alongside the resilience of the Indian armed forces, the world's fourth most powerful military. The occasion serves as a solemn reminder of the costs of war while honoring the victory and the valor and sacrifices that made it possible.

The legacy of the Kargil War extends beyond the battlefield, fostering a sense of national unity and pride. Kargil War's stories of heroism and sacrifice are etched in the annals of Indian history as a narrative of perseverance against odds. As the memory of the Kargil War heroes continues to inspire future generations, it remains a testament to the indomitable Indian spirit, the unyielding resolve and resilience of the Indian armed forces and the strategic brilliance of the Indian military leadership.

A Day to Remember the Martyrdom of the Brave Soldiers

JULY

KARGIL VIJAY DIWAS

SUMEET

Fire Engineers Pvt. Ltd.

Authorized Licensed Agency in Maharashtra

CORPORATE OFFICE

Rajmohan, 3rd Floor, 34 / 2 / 35/2, Karve Road, Garware College Metro Station, Pune - 411004 Tele :- 020-25390199 Mobile :- 9552509414 Email Id :- sumeet.fireps@gmail.com

JAHAGIRDAR AERO PRODUCTS

Kargil Vijay Diwas

Saluting the brave hearts of Kargil

JAP

An ISO 9001:2015 Company

First company in India to build and deliver fully functional Fixed-Wing UAV Systems.

The only Indian company with over three decades of specialized experience in UAVs.

Complete in-house design, development & testing capabilities.

Trusted Expertise in

Fixed-Wing UAVs

VTOLs

Multi-Rotor Drones

Airships & Aerostats

High-Speed Target Drones

Aviation -Grade Servos

Integration & Testing for UAVs

Flying services for UAVs & Drones

Customised Test Equipments

Drone Training Courses

Your ONE-STOP SHOP for UAVs & Targets in India

Contact: Mr. Yash Yogendra Jahagirdar

Address: 204/A, Near old S.T stand, Station Road, Ahilyanagar 414001. (MH). INDIA

Phone: +91 9011496999 E-mail: yash@japaero.org Website: www.japaero.org

* RED (READ. ENGAGE. DELIVER.) IS THE MARKETING SOLUTIONS TEAM OF THE INDIAN EXPRESS GROUP

Petronet LNG net profit slips 25% to ₹824 cr in June quarter

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, July 25

PETRONET LNG ON Friday reported a decline of 25% in its consolidated net profit for the first quarter of FY26 at ₹824.44 crore compared with ₹1,100.76 crore in the year-ago period. On a sequential basis, the company's net profit declined by 23% from ₹1,067.58 crore in Q4FY25.

The company's revenue from operations fell by 11% in Q1FY26 to ₹11,879.86 crore, against ₹13,415.13 crore in Q1FY25. Total income on a consolidated basis stood at ₹12,096.46 crore, down 11% from ₹13,592.84 crore in Q1FY25. The company's board has given an in-principle approval for additional investment for setting up a 5 metric million tonne per annum land-based LNG terminal at Gopalpur, where it earlier approved a 4 MMTPA floating storage and regasification unit-based LNG terminal.

The incremental project cost is ₹4,048.80 crore (including taxes and duties) and the overall approved value of the project is ₹6,354.80 crore, the company said in an exchange filing.

The project is the company's first greenfield liquefied natural gas (LNG) terminal on the east coast of India at Gopalpur, Odisha.

The company expects the proposed capacity to be added in approximately three years and will finance the project through a mix of debt and equity, it said.

Petronet LNG is the country's largest LNG importer. It was formed as a joint venture company by the Government of India to import LNG and set up LNG terminals, promoted by other public oil and natural gas companies — BPCL, GAIL, IOCL, and ONGC.

Apart from the new greenfield project, the existing regasification capacity of the company includes 17.5 MMTPA at the Dahej terminal currently expanding to 22.5 MMTPA and the Kochi terminal having a capacity of 5 MMTPA. Petronet LNG accounts for around 34% of gas supplies in the country and handles around 74% of LNG imports into India.

Nayara CEO quits post EU sanctions

RUSSIA-BACKED REFINER NAYARA Energy has named a new chief executive after its previous CEO resigned following European Union sanctions that targeted the company, four sources with knowledge of the matter said on Friday.

The reshuffle at the top is the latest disruption for the

company since the EU announced a new round of sanctions last Friday directed at Russia over its war in Ukraine. Mumbai-based Nayara has appointed company veteran Sergey Denisov as chief executive to replace Alessandro des Dorides, the sources said. Denisov's

appointment was decided at a board meeting on Wednesday, they said. Nayara Energy did not immediately respond to a request for comment. Des Dorides, who joined Nayara Energy in April 2024, for a three-year term, did not immediately respond to a message sent on LinkedIn. —REUTERS

CKA Birla Group



Orient Electric Limited

Registered Office: Unit VIII, Plot No. 7, Bhojnagar, Bhubaneswar-751012, Odisha
Tel: 0674-2396930, Email: investor@orientelectric.com Website: www.orientelectric.com, CIN: L31100OR2016PLC025892

Extract of Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025

S.No.	Particulars	Quarter ended		year ended
		Jun-30-2025	Jun-30-2024	Mar-31-2025
		Un-Audited		Audited
1.	Total Revenue	769.08	754.86	3,093.68
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	23.66	19.26	112.25
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	23.66	19.26	112.25
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	17.52	14.34	83.21
5.	Total Comprehensive Income for the period	17.56	14.42	83.77
6.	Equity Share Capital	21.34	21.34	21.34
7.	Other Equity	-	-	672.96
8.	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)			
	Basic:	0.82	0.67	3.9
	Diluted:	0.82	0.67	3.9

Note

- The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on July 25, 2025.
- The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website (www.orientelectric.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



Place: New Delhi
Dated: July 25, 2025

For Orient Electric Limited
Sd/-
Ravindra Singh Negi
Managing Director & CEO



HFCL LIMITED

Regd. Office: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan-173213 (Himachal Pradesh)
Tel.: (+911792) 230644; Fax No.: (+911792) 231902; E-mail: secretarial@hfcl.com
Website: www.hfcl.com; Corporate Identity Number (CIN): L64200HP1987PLC007466

STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the first quarter ended June 30, 2025 ('Financial Results') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on July 25, 2025.

The Financial Results along with the Limited Review Reports, have been posted on the Company's website at <https://www.hfcl.com/> and can be accessed by scanning the QR code.

By order of the Board
Sd/-
(Mahendra Nahata)
Managing Director
DIN: 00052898

Place : New Delhi
Date : July 25, 2025



Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

New Delhi Television Limited

CIN: L92111DL1988PLC033099

Regd. Off.: W-17, 2nd Floor, Greater Kailash – I,
New Delhi-110048
Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 Fax: 2923 1740
E-mail: corporate@ndtv.com; Website: www.ndtv.com



Statement of Standalone and Consolidated unaudited financial results for the Quarter Ended 30 June 2025.

Particulars	Standalone			Consolidated		
	3 months ended (30/06/2025)	Previous year ended (31/03/2025)	Corresponding 3 months ended (30/06/2024) in the previous year	3 months ended (30/06/2025)	Previous year ended (31/03/2025)	Corresponding 3 months ended (30/06/2024) in the previous year
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	5,040	26,172	4,867	10,765	46,503	9,392
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(6,555)	(19,979)	(4,415)	(7,009)	(21,513)	(4,666)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	(6,555)	(19,979)	(4,415)	(7,009)	(21,513)	(4,666)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	(6,555)	(19,979)	(4,415)	(7,038)	(21,609)	(4,675)
Total Comprehensive Income for the period	(6,578)	(20,070)	(4,439)	(7,071)	(21,725)	(4,708)
Equity share capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Other equity	-	14,052	-	-	3,294	-
Earning Per Share (of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinuing operations)						
Basic:	(10.17)	(30.99)	(6.85)	(10.92)	(33.52)	(7.25)
Diluted:	(10.17)	(30.99)	(6.85)	(10.92)	(33.52)	(7.25)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



Place: Noida
Date: 25 July 2025

On behalf of Board of Directors
For New Delhi Television Limited
Sanjay Pugalia
Whole-time Director
DIN: 08360398

ADVERTORIAL

KARGIL

VIJAY DIWAS

An initiative by RED

Read. Engage. Deliver.

INDIA and Pakistan have had a tumultuous relationship since the Partition of India in 1947, marked by several wars and ongoing disputes, particularly over the Kashmir region. Tensions have fluctuated, with periods of attempted diplomacy often interrupted by conflict. One of the most significant wars between India and Pakistan was the Kargil War. Waged in the summer of 1999 and ending with a decisive victory for India, the Kargil War witnessed intense fighting in the Kargil district of India's Jammu and Kashmir at a time when both India and Pakistan were armed with nuclear weapons.

Commemorating India's victory in the historic Kargil War, Kargil Vijay Diwas is observed in India every year on July 26 to honour the Indian soldiers who fought in

Operation Vijay was launched to evict the intruders from their entrenched positions. It was not merely a display of military might but also a testament to the strategic planning, coordination and sheer determination of the Indian military.



the war. The annual observance stands as a poignant reminder of the valour, unswerving commitment to service and supreme sacrifice of the Indian armed forces during the Kargil War.

The conflict, which erupted in May of 1999 and lasted until July, was a critical moment in India's military history, marking a significant victory against the infiltrating Pakistani troops, which had surreptitiously occupied strategic heights in the Kargil sector of Jammu and Kashmir. The genesis of the conflict lay in the harsh terrains of the Himalayas, where the Line of Control (LoC) separates India and Pakistan. In early May 1999, Pakistani soldiers and militants were discovered to have occupied key positions on the Indian side of the LoC, taking advantage of the region's sparse population and extreme weather conditions, posing a direct threat to

regional and national security and integrity.

The Indian military's response was swift and resolute. Operation Vijay was launched to evict the intruders from their entrenched positions. The operation was not merely a display of military might but also a testament to the strategic planning, coordination and sheer determination of the Indian military. Indian soldiers faced daunting challenges – from steep,

rocky terrains and freezing temperatures to the constant threat of enemy fire from well-fortified positions. Despite these hurdles, the Indian forces pressed on with unwavering courage, committed to their duty to maintain national safety and integrity – inspiring generations with their indomitable spirit. Their sacrifices were pivotal in turning the tide of the battle in India's favour after intense combat operations spanning over two months and en-

tailoring the mobilisation of 200,000 Indian troops. The victory not only restored India's territorial integrity but also made India's military prowess evident to the world.

Celebrating India's hard-fought victory while paying homage to the martyrs who laid down their lives in the line of duty, Kargil Vijay Diwas is more than a day of remembrance of the war's official end on 26 July 1999. It is a celebration of the

spirit of patriotism and nationalism alongside the resilience of the Indian armed forces, the world's fourth most powerful military. The occasion serves as a solemn reminder of the costs of war while honoring the victory and the valor and sacrifices that made it possible.

The legacy of the Kargil War extends beyond the battlefield, fostering a sense of national unity and pride. Kargil War's stories of heroism and sacrifice are etched in the annals of Indian history as a narrative of perseverance against odds. As the memory of the Kargil War heroes continues to inspire future generations, it remains a testament to the indomitable Indian spirit, the unyielding resolve and resilience of the Indian armed forces and the strategic brilliance of the Indian military leadership.

A Day to Remember the Martyrdom of the Brave Soldiers

JULY

KARGIL VIJAY DIWAS

SUMEET

Fire Engineers Pvt. Ltd.

Authorized Licensed Agency in Maharashtra

CORPORATE OFFICE

Rajmohan, 3rd Floor, 34 / 2 / 35/2, Karve Road, Ganware College Metro Station, Pune - 411004 Tele :- 020-25390199 Mobile :- 9552509414 Email id :- sumeet.fireps@gmail.com

JAHAGIRDAR AERO PRODUCTS

Kargil Vijay Diwas

Saluting the brave hearts of Kargil

JAP

An ISO 9001: 2015 Company

First company in India to build and deliver fully functional Fixed-Wing UAV Systems.

The only Indian company with over three decades of specialized experience in UAVs.

Complete in-house design, development & testing capabilities.

Trusted Expertise in

Fixed-Wing UAVs

VTOLs

Multi-Rotor Drones

Airships & Aerostats

High-Speed Target Drones

Aviation -Grade Servos

Integration & Testing for UAVs

Flying services for UAVs & Drones

Customised Test Equipments

Drone Training Courses

Your ONE-STOP SHOP for UAVs & Targets in India

Contact: Mr. Yash Yogendra Jahagirdar

Address: 204/A, Near old S.T stand, Station Road, Ahilyanagar 414001. (MH), INDIA

Phone: +91 9011496999 E-mail: yash@japaero.org Website: www.japaero.org

प्रपत्र संख्या आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार के समग्र
(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली)
 कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(a) के मामले में और
व्हाइटफील्ड्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में,
 जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-7/10 वसंत विहार, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110057 में है

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी निम्नलिखित के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में 18 जुलाई, 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार परिवर्तन की पुष्टि हेतु आवेदन, ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली”** से मुंबई स्थित **“महाराष्ट्र राज्य”** में परिवर्तित कर सके।
 कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक अनुपालन प्रपत्र परकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियां पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर आवेदक कंपनी की एक प्रति, ऊपर उल्लिखित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में जमा करानी होगी।

निदेशक मंडल की ओर से
व्हाइटफील्ड्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षरकर्ता/-

दिनांक: 24 जुलाई, 2025
 स्थान: नई दिल्ली
देवेन्द्र चौधरी (निदेशक)
 डीआईएन: 10940003

क्विंट डिजिटल लिमिटेड

(पूर्व में क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड)
सीआईएन : L63122DL1985PLC373314
पंजीकृत कार्यालय : 403 प्रभात किरण, 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली-110008 **दुबियाकू :** 011 45142374
कारपोरेट कार्यालय : कार्गुटी बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 1, 9वां तल, सेक्टर 16ए, **फिन्स सिटी, नोएडा-201301** **फोन :** 0120 4751818
वेबसाइट : www.quintdigital.in, **ईमेल :** cs@thequint.com
भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने के लिए विशेष विंडो के संबंध में सूचना

भारतीय प्रतिभूति और निगम बोर्ड (सेबी) ने अपने परिचय संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएससी/एमआईआरएससी-पीओबी /पी/सीआईआर/2025/97 दिनांकित 2 जुलाई 2025 के माध्यम से भौतिक शेयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए एक विशेष विंडो शुरू की है।
 एक परिचय के अनुसार, फिन्स निवेशकों ने 01 अप्रैल, 2019 (फिन्स सार्वभूमि से प्रतिभूतियों का भौतिक रूप में हस्तांतरण बंद कर दिया गया था) से पहले भौतिक शेयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोध प्रस्तुत किया था, और फिन्स अनुरोध दस्तावेजों/प्रक्रिया/ या अन्य कमी के कारण अस्वीकार कर दिए गए/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें अब आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐसे स्थानांतरण अनुरोधों को फिर से दर्ज करने का अवसर प्रदान किया गया है।
 निवेशक 07 जुलाई 2025 से 06 जनवरी 2026 तक छह माह की विशेष विंडो अवधि के दौरान आवश्यक दस्तावेजों और सुचारुतापूर्वक क्रियाओं के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास अपने पहले के अनुरोधों को फिर से दर्ज कर सकते हैं। निवेशक नीचे दिए गए किसी भी पते पर कंपनी या आरटीए को दस्तावेज भेज सकते हैं:

क्विंट डिजिटल लिमिटेड	स्काईलाइन फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
सेवा में,	रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट
कंपनी सचिव,	यूनिट : क्विंट डिजिटल लिमिटेड
पता — 403, प्रभात किरण,	पता — ए-506, दत्तानी लाइन,
17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली-110008	अखेरी कुली रोड, सफेद पुर,
ईमेल : cs@thequint.com	अखेरी — पूर्व, मुंबई- महाराष्ट्र 400072
	ईमेल : pravin.cm@skylinertn.com

सेबी परिचय निम्नलिखित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार में, हस्तांतरण के लिए पुनः जमा की गई प्रतिभूतियां (जिनमें वे अनुरोध भी शामिल हैं जो आज की तारीख तक कंपनी/आरटीए के पास नहीं हैं) ऐसे हस्तांतरण-रह-शीट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल शीट रूप में जारी की जाएगी।

हम उन सभी निवेशकों से आग्रह करते हैं, जिन्होंने पूर्व में हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तुत किया था और अभी तक क्रियाओं के कारण शेयर प्राप्त नहीं कर पाए हैं, कि वे निवेशकों के हित में शुरू की गई इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएं।

क्विंट डिजिटल लिमिटेड के लिए
हस्ता /—
तरुण बेरवाल

दिनांक : 25 जुलाई, 2025
 स्थान: नोएडा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
 एम. नं. : ए39190



केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110 020
 फोन: 91-11-26818840/26818642, वेबसाइट: www.kei-ind.com
 ई-मेल आईडी: cs@kei-ind.com
 (सीआईएन: L14899DL1992PLC051527)



शेयरधारकों को सूचना

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

सभी संबंधित शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि, सेबी परिचय संख्या SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, भौतिक प्रतिभूतियों से संबंधित हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक 6 महीने की अवधि के लिए खोली गई है।

यह पहल उन स्थानांतरण अनुरोधों पर लागू है जो मूल रूप से 01 अप्रैल, 2019 से पहले प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन दस्तावेजीकरण में कमीयां या अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण या तो अस्वीकार कर दिए गए, वापस कर दिए गए, या संसाधित नहीं किए गए।

यह सुविधा उन शेयरधारकों के लिए भी लागू है जो पात्र थे, लेकिन पिछले सेबी दांचे के तहत पुनः आवेदन के लिए 31 मार्च, 2021 की पूर्व निर्धारित समय सीमा से धूक गए थे। ऐसे शेयरधारक अब इस नई घोषित अवधि के दौरान अपने स्थानांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि सभी पुनः जमा किए गए स्थानांतरण अनुरोधों पर पूरी तरह से डीमैट रूप में कार्यवाई की जाएगी। संबंधित शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने स्थानांतरण अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली - 110020 को पुनः जमा करें। फोन: 011-26387281-83; ईमेल आईडी: investor@masserv.com.

कृते केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 हस्ता /—
 किशोर कुणाल
 सीपी (कार्पोरेट फाइनेंस)
 और कंपनी सचिव

हस्ताक्षर स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 25.07.2025



जिंदल पॉली फिल्मस लिमिटेड
 (सीआईएन नंबर: L17111UP1974PLC003979)
 पंजी. कार्यालय: 19 कैपेन, हापुर बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलाबटी, बुलंदशहर (उ.प्र.) — 205408
 फोन: 0573 2296500
 कार्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 87, सेक्टर-32, इंदौर/दुधानल एरिया, दुधगाम, हरियाणा-122001
 फोन: 0124-5025100
 ईमेल: cs_jpoly@jindalgroup.com, वेबसाइट: www.jindalpoly.com



शेयरधारकों के लिए नोटिस
(कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में हस्तांतरण)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के संघर्षित, यथासमय संशोधित, अन्य के अतिरिक्त, प्रकाशन करते हैं कि सभी दायारहित लाभार्थी और शेयर, जिनके संबंध में लगातार 7 (सात) वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभार्थी का दावा या भुगतान नहीं किया गया है, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

कंपनी को अदेय / दावा नहीं किए गए लाभार्थी को आईईपीएफ में हस्तांतरित करना अनिवार्य है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए घोषित अंतिम लाभार्थी से संबंधित शेयर, जिनका शेयरधारकों द्वारा लगातार सात (7) वर्षों या उससे अधिक समय तक भुगतान / दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा अभिसूचित आईईपीएफ डीमैट खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ नियमों के अनुसारण में, कंपनी ने उन संबंधित शेयरधारकों को आवश्यक नोटिस प्रेषित कर दिये हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभार्थी का दावा / नकदीकरण नहीं किया है और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं। ऐसे शेयरधारकों के विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://www.jindalpoly.com/download> पर अपलोड कर दिये गये हैं और शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य शेयरों के विवरण सत्यापित करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी कॉन्फिनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, गांधीबोयली, हैदराबाद — 500032, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com, फोन: 040-67162222 / 1517 पर आवेदन भेज कर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने दावा नहीं किए गए लाभार्थी का दावा कर लें। जिन लाभार्थी का दावा नहीं किया गया है उनका दावा करने हेतु आवेदन कंपनी की उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि कॉन्फिनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को 15 अक्टूबर 2025 या उससे पहले, या कंपनी द्वारा विस्तारित की गई किसी अन्य तिथि तक, अदावाकृत लाभार्थी के लिए कैव दावा प्राप्त नहीं होता है, तब अधिनियम और नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु, कंपनी संबंधित शेयरों को आईईपीएफ निधियों या उसके बाद किसी संशोधन के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को उनका हस्तांतरण कर देगी और हालांकि, उक्त अदेय / दावाकृत लाभार्थी और उपररक्त नियमों के तहत हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी /आरटीए के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हस्तांतरित शेयरों को अधिनियम के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस लिया जा सकता है। ऐसे शेयरों के संबंध में मूल शेयर प्रमाणपत्र, जो संबंधित शेयरधारकों द्वारा भौतिक रूप में रखे गए हैं, स्वतः ही रद्द हो जाएंगे और वे अपराकृत्य (non-negotiable)माने जाएंगे।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित ऐसे शेयरों पर अंतिम लाभ सौहित, यदि कोई हो, आईईपीएफ से वापस लिए जा सकते हैं। आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। यदि शेयरधारकों के पास इस संबंध में कोई प्रश्न है, तो वे कंपनी के शेयर हस्तांतरण एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। शेयरधारक कंपनी सचिव को cs_jpoly@jindalgroup.com पर भी लिख सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार द्वारा,
 हस्ता /—
 श्री अशांक यादव
 कंपनी सचिव, एसीएन: 14223

दिनांक: 25 जुलाई, 2025
 स्थान: गुरुग्राम



एचएफसीएल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन-173213 (हिमाचल प्रदेश)
संपर्क: (+911792) 230644; **फैक्स:** (+911792) 231902; **ईमेल:** secretarial@hfcl.com
वेबसाइट: www.hfcl.com; **कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):** L64200HP1987PLC007466



30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही हेतु गैर-लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

30 जून, 2025 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों (‘वित्तीय परिणाम’) की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा एवं अनुशंसा की गई है तथा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 25 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में अनुमोदित किया गया है।


सीमित समीक्षा रिपोर्टों सहित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट <https://www.hfcl.com/> पर पोस्ट किए गए हैं तथा क्यूआर कोड स्कैन करके उन्हें देखा जा सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
 हस्ता./—
(महेंद्र नाहता)
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 00052898

स्थान: नई दिल्ली
 तिथि: 25 जुलाई, 2025


नोट: उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं विनियम 47(1) के अनुसार है।

New Delhi Television Limited
 CIN: L92111DL1988PLC033099
 Regd. Off.: W-17, 2nd Floor, Greater Kallash – I, New Delhi-110048
 Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 Fax: 2923 1740
 E-mail: corporate@ndtv.com; Website: www.ndtv.com



Statement of Standalone and Consolidated unaudited financial results for the Quarter Ended 30 June 2025.						
Particulars	Standalone			(Rs. in Lakhs except per share data)		
	3 months ended (30/06/2025)	Previous year ended (31/03/2025)	Corresponding 3 months ended (30/06/2024) in the previous year	3 months ended (30/06/2025)	Previous year ended (31/03/2025)	Corresponding 3 months ended (30/06/2024) in the previous year
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	5,040	26,172	4,867	10,765	46,503	9,392
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(6,555)	(19,979)	(4,415)	(7,009)	(21,513)	(4,666)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	(6,555)	(19,979)	(4,415)	(7,009)	(21,513)	(4,666)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	(6,555)	(19,979)	(4,415)	(7,038)	(21,609)	(4,675)
Total Comprehensive Income for the period	(6,578)	(20,070)	(4,439)	(7,071)	(21,725)	(4,708)
Equity share capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Other equity	-	14,052	-	-	3,294	-
Earning Per Share (of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinuing operations)						
Basic:	(10.17)	(30.99)	(6.85)	(10.92)	(33.52)	(7.25)
Diluted:	(10.17)	(30.99)	(6.85)	(10.92)	(33.52)	(7.25)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



Place: Noida
 Date: 25 July 2025

On behalf of Board of Directors
 For New Delhi Television Limited
 Sanjay Pughia
 Whole-time Director
 DIN: 08360398





Has Israel established dominance over Iran?

Will President Trump bring peace to the Middle East?

Is there a possibility of a regime change in Iran?

Has the Israeli PM Netanyahu over-reached?

What does the Israel-Iran conflict and tension mean for India?

30 JULY 2025

06:00 PM

Join us on **ZOOM**

In conversation with

Navtej Sarna
 Former Ambassador of India to US, UK and Israel

Shubhajit Roy
 Diplomatic Editor
 The Indian Express

Scan to Register

